



भारत का राजपत्र The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

साप्ताहिक
WEEKLY

सं. 21] नई दिल्ली, अगस्त 14—अगस्त 20, 2005, शनिवार/श्रावण 23—श्रावण 29, 1927
No. 21] NEW DELHI, AUGUST 14—AUGUST 20, 2005, SATURDAY/SRAVANA 23—SRAVANA 29, 1927

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (iii)
PART II—Section 3—Sub-section (iii)

केन्द्रीय अधिकारियों (संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा जारी किये गये आदेश और अधिसूचनाएं
Orders and Notifications issued by Central Authorities (other than the Administrations of Union Territories)

भारत निर्वाचन आयोग
आदेश

नई दिल्ली, 8 अगस्त, 2005

आ. अ. 119.—निर्वाचन आयोग का समाधान हो गया है कि नीचे की सारणी के स्तम्भ (2) में यथा विनिर्दिष्ट मध्य प्रदेश विधान सभा के साधारण निर्वाचन, 2003 के लिए जो स्तम्भ (3) में विनिर्दिष्ट निर्वाचन क्षेत्र से हुआ है स्तम्भ (4) में उसके सामने विनिर्दिष्ट निर्वाचन लड़ने वाला प्रत्येक अभ्यर्थी, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 तथा तद्वीन बनाए गए नियमों द्वारा अपेक्षित उक्त सारणी के स्तम्भ (5) में यथा दर्शित अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा दाखिल करने में असफल रहा है।

और उक्त अभ्यर्थियों ने सम्यक् सूचना दिए जाने पर भी उक्त असफलता के लिए या तो कोई कारण अथवा स्पष्टीकरण नहीं दिया है या उनके द्वारा दिए गए अभ्यावेदनों पर, यदि कोई हो, विचार करने के पश्चात् निर्वाचन आयोग का यह समाधान हो गया है कि उनके पास उक्त असफलता के लिए कोई पर्याप्त कारण या न्यायौचित्य नहीं है;

अतः अब, निर्वाचन आयोग, उक्त अधिनियम की धारा 10-क के अनुसरण में नीचे की सारणी के स्तम्भ (4) में विनिर्दिष्ट व्यक्तियों को संसद के किसी भी सदन के या किसी राज्य/संघ राज्य-क्षेत्र की विधान सभा अथवा विधान परिषद् के सदस्य चुने जाने और होने के लिए इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निरहिता घोषित करता है।

सारणी				
क्र. सं.	निर्वाचन का विवरण	विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र की क्रम संख्या व नाम	निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थी का नाम और पता	निरर्हता का कारण
1	2	3	4	5
1.	मध्य प्रदेश विधान सभा के लिए साधारण निर्वाचन, 2003	10-मेहगांव	दयाशंकर ग्राम-बीसलपुरा, मध्य प्रदेश	निर्वाचन व्यर्थों का लेखा दाखिल करने में असफल रहे।
2.	-वही-	11-अटेर	अखिलेश भारोली रोड, भिण्ड, मध्य प्रदेश	-वही-
3.	-वही-	-वही-	अनिल कुमार कटारे ग्राम खड़ौत, तहसील अटेर, मध्य प्रदेश	-वही-
4.	-वही-	-वही-	अनिल सिंह ग्राम किशपुरा, तहसील-अटेर, मध्य प्रदेश	-वही-
5.	-वही-	-वही-	आदिराम ग्राम-किशपुरा, तह. अटेर मध्य प्रदेश	-वही-
6.	-वही-	-वही-	जगमोहन सिंह ग्राम-हुलापुरा, तहसील-अटेर, मध्य प्रदेश	-वही-
7.	-वही-	-वही-	जयसिंह सिंह जाटव ग्राम-भुजपुरा, पोस्ट-धरई, तहसील-अटेर, मध्य प्रदेश	-वही-
8.	-वही-	-वही-	सौदान ग्राम-किशपुरा, तहसील-अटेर मध्य प्रदेश	-वही-
9.	-वही-	46-टीकमगढ़	प्राणीलाल ग्राम-वनियाणी, पोस्ट सरकान, जिला-टीकमगढ़, मध्य प्रदेश	-वही-
10.	-वही-	-वही-	अच्छे लाल ग्राम-डुडियन खेरा, पोस्ट-देवरदा, जिला-टीकमगढ़, मध्य प्रदेश	-वही-
11.	-वही-	-वही-	घासीराम अक्कड़ ग्राम व पोस्ट-डारगुना, तहसील-बल्देवगढ़, जिला-टीकमगढ़, मध्य प्रदेश	-वही-
12.	-वही-	117-नरसिंहपुर	शहीद खान आजाद वार्ड कंदेली, नरसिंहपुर, मध्य प्रदेश	-वही-

1	2	3	4	5
13.	मध्य प्रदेश विधान सभा के लिए साधारण निर्वाचन, 2003	117-नरसिंहपुर	बालाराम रामनगर वर्मा कालोनी के पास नरसिंहपुर, तह. व. जिला-नरसिंहपुर मध्य प्रदेश	निर्वाचन व्यर्थों का लेखा दाखिल करने में असफल रहे।
14.	-वही-	160-सिरोंज	का. साहब दास स्वदेशी ग्राम-मदगान, पोस्ट-परसौरा सिरोंज, मध्य प्रदेश	-वही-
15.	-वही-	-वही-	खुमान सिंह ग्राम-कंसी सिरोंज, जिला-विदिशा, मध्य प्रदेश	-वही-
16.	-वही-	198-भीकनगांव (अ.ज.जा.)	कलसिंह भुरला बड़ोले ग्राम धूपीखुर्द, तहसील-शिरन्या, मध्य प्रदेश	-वही-
17.	-वही-	-वही-	लाल सिंह मोती सिंह पटेल ग्राम-गोरखपुर, तहसील-शिरन्या मध्य प्रदेश	-वही-
18.	-वही-	-वही-	अमर सिंह घोषले ग्राम-कमोदवाड़ा तह.-शिरन्या, मध्य प्रदेश	-वही-
19.	-वही-	-वही-	महेन्द्र सिंह पटेल ग्राम-कोठा बुजुर्ग, तह.-शिरन्या मध्य प्रदेश	-वही-
20.	-वही-	201-कसरावद	ब्रह्मानंद वार्ड क 11, महेश्वर रोड, कसरावद, जिला-खरगोन मध्य प्रदेश	-वही-
21.	-वही-	-वही-	कंचना बाई शकीना लोडीपुरा मुकंदपुरा, पोस्ट-सतराटी तहसील-कसरावद, जिला-खरगोन मध्य प्रदेश	-वही-
22.	-वही-	-वही-	राजेश पशु चिकित्सालय के सामने गाजीपुरा, पोस्ट-खलघाट जिला-घार, मध्य प्रदेश	-वही-

[सं. 76/म.प्र.-वि.स./2003]

आदेश से,

एस. के. कौरा, सचिव

ELECTION COMMISSION OF INDIA

ORDER

New Delhi, the 8th August, 2005

O. N. 119.—Whereas, the Election Commission is satisfied that each of the contesting candidates specified in column (4) of the Table below at the General Election to Madhya Pradesh Legislative Assembly, 2003 as specified in column (2) held from the constituency specified in column (3) against his name has failed to lodge account of his election expenses by the Representations of the People Act, 1951 and the rule made thereunder as shown in column (5) of the said table;

And, Whereas, the said candidates have not furnished any reason or explanation for the said failure even after due notice and the Election Commission, is thus satisfied that they have no good reason or justification for the said failure;

Now, therefore, in pursuance of section 10A of the said Act, the Election Commission hereby declares the person specified in column (4) of the table below to be disqualified for being chosen as and for being a member of either House of Parliament or of the Legislative Assembly or Legislative Council of a State/Union Territory for a period of three years from the date of this order :

TABLE

Sl. No.	Particular of election	S. No. & Name of Assembly Constituency	Name & Address of contesting candidate	Reason for disqualification
1	2	3	4	5
1.	General Election to Madhya Pradesh Legislative Assembly, 2003	10-Mehgaon	Dayashankar, Vill.-Bisalpur, Madhya Pradesh	Failure to lodge any account of election expenses.
2.	—do—	11-Attair	Akhilesh, Bharoli Road, Bhind, Madhya Pradesh.	—do—
3.	—do—	—do—	Anil Kumar Katore, Vill.-Khraot, Tah.-Attair, Madhya Pradesh.	—do—
4.	—do—	—do—	Anil Singh, Vill.-Kishpura, Tah.-Attair, Madhya Pradesh.	—do—
5.	—do—	—do—	Aadiram, Vill.-Kishpura, Tah.-Attair, Madhya Pradesh.	—do—
6.	—do—	—do—	Jagmohan Singh, Vill.-Hulapura, Tah.-Attair, Madhya Pradesh.	—do—
7.	—do—	—do—	Jaisingh Singh Jatav, Vill.-Bhujpura, Post-Dharai, Tah.-Attair, Madhya Pradesh.	—do—
8.	—do—	—do—	Saudan, Vill.-Kishpura, Tah.-Attair, Madhya Pradesh.	—do—
9.	—do—	46-Tikamgarh	Pragilal, Vill.-Vaniyani, Post-Sarkan, Distt.-Tikamgarh, Madhya Pradesh.	—do—

1	2	3	4	5
10.	General Election to Madhya Pradesh Legislative Assembly, 2003.	46-Tikamgarh	Achhe Lal, Vill.-Duriyan Khara, Post-Devrada, Distt.-Tikamgarh, Madhya Pradesh.	Failure to lodge any account of election expenses.
11.	-do-	-do-	Ghasiram Akkar, Vill. & Post-Darguna, Tah.-Baldevgarh, Distt.-Tikamgarh, Madhya Pradesh.	-do-
12.	-do-	117-Narsimhapur	Shahid Khan, Azad Ward Kandeli, Narsimhapur, Madhya Pradesh.	-do-
13.	-do-	-do-	Balaram, Near Ramnagar Varni Coloni, Narsimhapur, Tah. & Distt.-Narsimhapur, Madhya Pradesh.	-do-
14.	-do-	160-Sironj	Ka. Sahab Das Swadeshi, Vill.-Madagan, Post-Parsaura, Sironj, Madhya Pradesh.	-do-
15.	-do-	-do-	Khuman Singh, Vill.-Kansi, Sironj, Distt.-Vidisha, Madhya Pradesh.	-do-
16.	-do-	198-Bhikangaon (ST)	Kalsingh Bhurla Barole, Vill.-Dhupikhard, Tah.-Jhirnya, Madhya Pradesh.	-do-
17.	-do-	-do-	Lal Singh Moti Singh Patel, Vill.-Gorakhpur, Tah.-Jhirnya, Madhya Pradesh.	-do-
18.	-do-	-do-	Amar Singh Ghoshle, Vill.-Kamodvara, Tah.-Jhirnya, Madhya Pradesh.	-do-
19.	-do-	-do-	Mahender Singh Patel, Vill.-Kotha Bujurg, Tah.-Jhirnya, Madhya Pradesh.	-do-
20.	-do-	201-Kasrawad	Brahmanand, Ward No. 11, Maheshwar Road, Kasrawad, Distt.-Khargone, Madhya Pradesh.	-do-
21.	-do-	-do-	Kanchna Bai Shakina, Lodipura Mukandpura, Post-Satrati, Tah.-Kasrawad, Distt.-Khargone, Madhya Pradesh.	-do-

2362 ए/1-5-2

1	2	3	4	5
22.	General Election to Madhya Pradesh Legislative Assembly, 2003	201-Kasrawad	Rajesh, Near Pashu Chikitsalya, Gajipura, Post-Khalghat, Distt.-Dhar, Madhya Pradesh.	Failure to lodge any account of election expenses.

[No. 76/MP-LA/2003]

By Order,

S. K. KAURA, Secy.

आदेश

नई दिल्ली, 8 अगस्त, 2005

आ.अ. 120.—यतः निर्वाचन आयोग का समाधान हो गया है कि नीचे की सारणी के स्तम्भ 2 में यथा विनिर्दिष्ट राजस्थान विधान सभा के साधारण निर्वाचन, 2003 के लिए जो स्तम्भ 3 में विनिर्दिष्ट निर्वाचन क्षेत्र से हुआ है स्तम्भ 4 में विनिर्दिष्ट निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थी, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 तथा तद्दीन बनाए गए नियमों द्वारा अपेक्षित उक्त सारणी के स्तम्भ 5 में यथा-दर्शित अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा दाखिल करने में असफल रहे हैं;

और, यतः, अभ्यर्थी ने निर्वाचन आयोग द्वारा सम्यक् सूचना दिए जाने पर भी उक्त असफलता के लिए न तो कोई कारण और नहीं स्पष्टीकरण दिया है अथवा उनके द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदनों पर, यदि कोई हों, विचार करने के पश्चात् निर्वाचन आयोग का यह समाधान हो गया है कि उनके पास उक्त असफलता के लिए कोई पर्याप्त कारण या न्यायौचित्य नहीं है;

अतः, अब, निर्वाचन आयोग, उक्त अधिनियम की धारा 10-क के अनुसरण में नीचे के स्तम्भ 4 में विनिर्दिष्ट व्यक्ति का संसद के किसी भी सदन के या किसी राज्य/संघ राज्य-क्षेत्र की विधान सभा अथवा विधान परिषद् के सदस्य चुने जाने और होने के लिए इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए एतद्वारा निरहित घोषित करता है।

सारणी

क्र. सं.	निर्वाचन का विवरण	विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र की क्रम संख्या और नाम	निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थी का नाम और पता	निरर्हता का कारण
1	2	3	4	5
1.	विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र के लिए साधारण निर्वाचन, 2003	18-रतनगढ़	श्री लिखमी चन्द जांगिड़ तिलवानगर, वार्ड नं. 21, रतनगढ़, राजस्थान	लेखा दाखिल नहीं किया

[सं. 76/राज./2003]

आदेश से,

के. आर. प्रसाद, सचिव

ORDER

New Delhi, the 8th August, 2005

O.N. 120.—Whereas, the Election Commission of India is satisfied that the contesting candidate specified in column 4 of the Table below at the General Election to the Rajasthan Legislative Assembly held in 2003 specified in column 2 and held from the constituency specified in column 3 against his name has failed to lodge the account of his/her election expenses as shown in column 5 of the said Table as required by the Representation of the People Act, 1951 and the Rules made thereunder;

And whereas, the said candidate has either not furnished any reason or explanation for the said failure even after due notice by the Election Commission or after considering the representation made by him, if any, the Election Commission is satisfied that he has no good reason or justification for the said failure;

Now, therefore, in pursuance of section 10A of the said Act, the Election Commission hereby declares the person specified in column 4 of the Table below to be disqualified for being chosen as and for being a member of either House of Parliament or the Legislative Assembly or Legislative Council or a State/Union Territory for a period of three years from the date of this order :—

TABLE

Sl. No.	Particulars of Election	Sl. No. and Name of Assembly Constituency	Name & Address of Contesting Candidate	Reason for Disqualification
1	2	3	4	5
1.	General Election to the Legislative Assembly, 2003	18-Ratangarh	Sh. Likhimchand Jangid Tilaknagar, Ward No. 21, Ratangarh, Rajasthan	Account not Lodged

[No. 76/RJ/2003]

By Order,
K. R. PRASAD, Secy.

आदेश

नई दिल्ली, 10 अगस्त, 2005

आ.अ. 121.—यतः, 4-देंताम विधान सभा निर्वाचन-क्षेत्र से, 2004 में सिक्किम विधान सभा के लिए हुए निर्वाचन में निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थी, श्री मंगल दोज सुब्बा, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 और तद्द्वारा बनाए गए नियमों द्वारा यथा अपेक्षित अपने व्ययों का लेखा दाखिल करने में असफल रहे हैं;

और यतः, उक्त अभ्यर्थी ने सम्यक् सूचना दिए जाने पर भी उक्त असफलता के लिए कोई कारण अथवा स्पष्टीकरण नहीं दिया है और निर्वाचन आयोग का यह समझाना हो गया है कि उनके पास उक्त असफलता के लिए कोई पर्याप्त कारण या न्यायोचित्य नहीं है;

अतः, अब निर्वाचन आयोग उक्त अधिनियम की धारा 10-क के अनुसरण में एतद्वारा उक्त श्री मंगल दोज सुब्बा को संसद के किसी भी सदन के या किसी राज्य अथवा संघ राज्य क्षेत्र की विधान सभा अथवा विधान परिषद् के सदस्य चुने जाने और होने के लिए इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निरहित घोषित करता है।

[सं. 76/सिक्किम.-वि.स./2004]

आदेश से,
के. अजय कुमार, सचिव

ORDER

New Delhi, the 10th August, 2005

O.N. 121.—Whereas, Shri Mangal Dhoj Subba a contesting candidate at the Election to the Sikkim Legislative Assembly, 2004, held from 4-Dentam Assembly Constituency has failed to lodge any account of his election expenses, as required by the Representation of the People Act, 1951 and the Rules made thereunder;

And whereas, Shri Mangal Dhoj Subba has not furnished any reason or explanation for the said failure even after due notice of the Election Commission;

And whereas, the Election Commission is satisfied that the said candidate has no good reason or justification for the said failure;

Now, therefore, in pursuance of section 10A of the said Act, the Election Commission hereby declares Shri Mangal Dhoj Subba to be disqualified for being chosen as, and for being, a member of either House of the Parliament or of the Legislative Assembly or Legislative Council of a State/Union Territory for a period of 3 years from the date of this order.

[No. 76/SKM-LA/2004]

By order,
K. AJAYA KUMAR, Secy.